

## श्री देव-शास्त्र-गुरु पूजा Śrī Dēva-Sāstra-Guru Pūjā

कविश्री युगलजी

केवल-रवि-किरणों से जिसका, सम्पूर्ण प्रकाशित है अंतर |  
उस श्री जिनवाणी में होता, तत्त्वों का सुन्दरतम दर्शन ||  
सद्दर्शन-बोध-चरण-पथ पर, अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण |  
उन देव-परम-आगम गुरु को, शत-शत वंदन शत-शत वंदन ||

ॐ ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरु समूह! अत्र अवतर! अवतर! संवौषट् (आह्वाननम्)।

ॐ ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरु समूह! अत्र तिष्ठ! तिष्ठ! ठः! ठः! (स्थापनम्)।

ॐ ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरु समूह! अत्र मम सन्निहितो भव! भव! वषट्! (सन्निधिकरणम्)।

Kaviśrī Yugalajī

Kēvala-ravi-kiraṇōm sē jisakā, sampūrṇa prakāśita hai antara |  
Usa śrī jinavāṇī mēm hōtā, tattvōm kā sundaratama darśana ||  
Saddarśana-bōdha-caraṇa-patha para, avirala jō baṛhatē hairm munigaṇa |  
Una dēva-parama-āgama guru kō, śata-śata vandana śata-śata vandana ||

Ōm hrīm śrī dēvaśāstraguru samūha! Atra avatara! Avatara! Sanvaṣaṭ! (āhvānanam).

Ōm hrīm śrī dēvaśāstraguru samūha! Atra tiṣṭha! Tiṣṭha! Ṭha:ḥ! Ṭha:ḥ! (sthāpanam).

Ōm hrīm śrī dēvaśāstraguru samūha! Atra mam sannihitō bhava bhava Vaṣaṭ!(sannidhikaraṇam)

इन्द्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया |  
यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया ||  
मैं भूल स्वयं के वैभव को, पर-ममता में अटकाया हूँ |  
अब निर्मल सम्यक्-नीर लिये, मिथ्यामल धोने आया हूँ ||

ॐ ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरुभ्यः जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा।

Indriya kē bhōga madhura viṣa sama, lāvaṇyamayī kañcana kāyā |  
Yaha saba kucha jaṛa kī krīṛā hai, mairm aba taka jāna nahīm pāyā ||  
Mairm bhūla svayam kē vaibhava kō, para-mamatā mēm aṭakāyā hūm̃ |  
Aba nirmala samyak-nīra liyē, mithyā-mala dhōnē āyā hūm̃ ||

Ōm hrīm śrī dēvaśāstragurubhya: Janmajarāmṛtyuvinaśanāya jalam nirvapāmīti svāhā |

जड़-चेतन की सब परिणति प्रभु! अपने-अपने में होती है |  
 अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है ||  
 प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित, होकर संसार बढ़ाया है |  
 संतप्त-हृदय प्रभु! चंदन-सम, शीतलता पाने आया है ||

ॐ ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरुभ्यः संसारतापविनाशनाय चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा।

Jaṛa-cētana kī saba pariṇati prabhu! Apanē-apanē mēm hōtī hai |  
 Anukūla kahēm pratikūla kahēm, yaha jhūṭhī mana kī vṛtti hai ||  
 Pratikūla sanyōgōm mēm krōdhita, hōkara sansāra baṛhāyā hai |  
 Santapta-hṛdaya prabhu! Candana-sama, śītalatā pānē āyā hai ||

Om hrīm śrī dēvaśāstragurubhya: Sansāratāpavināśanāya candanaṁ nirvapāmīti svāhā |

उज्वल हूँ कुंद-धवल हूँ प्रभु! पर से न लगा हूँ किंचित् भी |  
 फिर भी अनुकूल लगें उन पर, करता अभिमान निरंतर ही ||  
 जड़ पर झुक-झुक जाता चेतन, नश्वर वैभव को अपनाया |  
 निज शाश्वत अक्षय निधि पाने, अब दास चरण रज में आया ||

ॐ ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरुभ्यः अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा।

Ujjvala hūm̃ kunda-dhavalā hūm̃ prabhu! Para sē na lagā hūm̃ kiñcit bhī |  
 Phira bhī anukūla lagēm una para, karatā abhimāna nirantara hī ||  
 Jaṛa para jhuka-jhuka jātā cētana, naśvara vaibhava kō apanāyā |  
 Nija śāśvata akṣaya nidhi pānē, aba dāsa caraṇa raja mēm āyā ||

Om hrīm śrī dēvaśāstragurubhya: Akṣayapadaprāptayē akṣatān nirvapāmīti svāhā |

यह पुष्प सुकोमल कितना है! तन में माया कुछ शेष नहीं |  
 निज-अंतर का प्रभु भेद कहूँ, उसमें ऋजुता का लेश नहीं ||  
 चिंतन कुछ फिर सम्भाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है |  
 स्थिरता निज में प्रभु पाऊँ, जो अंतर-कालुष धोती है ||

ॐ ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरुभ्यः कामबाणविध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा।

Yaha puṣpa sukōmala kitanā hai! Tana mēm māyā kucha śēṣa nahīm |  
 Nija-antara kā prabhu bhēda kahūm̃, usamēm ṛjutā kā lēśa nahīm ||  
 Cintana kucha phira sambhāṣaṇa kucha, kriyā kucha kī kucha hōtī hai |  
 Sthiratā nija mēm prabhu pā'ūm̃, jō antara-kāluṣa dhōtī hai ||

Om hrīm śrī dēvaśāstragurubhya: Kāmbāṇavidhvansanāya puṣpaṁ nirvapāmīti svāhā |

अब तक अगणित जड़-द्रव्यों से, प्रभु! भूख न मेरी शांत हुई |  
 तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही ||  
 युग-युग से इच्छा-सागर में, प्रभु! गोते खाता आया हूँ |  
 पंचेन्द्रिय-मन के षट्-रस तज, अनुपम-रस पीने आया हूँ ||

ॐ ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरुभ्यः क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा।

Aba taka agaṇita jaṛa-dravyōm sē, prabhu! bhūkha na mēri śānta hu'i |

Tṛṣṇā kī khā'i khūba bhari, para rikta rahī vaha rikta rahī ||

Yuga-yuga sē icchā-sāgara mēm, prabhu! Gōtē khātā āyā hūm̃ |

Pañcēndriya-mana kē ṣaṭ-rasa taja, anupama-rasa pīnē āyā hūm̃ ||

Om hrīm śrī dēvaśāstragurubhya: Kṣudhārōgavināśanāya naivēdyam̃ nirvapāmīti svāhā |

जग के जड़ दीपक को अब तक, समझा था मैंने उजियारा |  
 झंझा के एक झकोरे में, जो बनता घोर तिमिर कारा ||  
 अतएव प्रभो! यह नश्वर-दीप, समर्पण करने आया हूँ |  
 तेरी अंतर लौ से निज, अंतर-दीप जलाने आया हूँ ||

ॐ ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरुभ्यः मोहान्धकारविनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा।

Jaga kē jaṛa dīpaka kō aba taka, samajhā thā mainnē ujiyārā |

Jhañjhā kē ēka jhakōrē mēm, jō banatā ghōra timira kārā ||

Ata'ēva prabhō! Yaha naśvara-dīpa, samarpaṇa karanē āyā hūm̃ |

Tēri antara lau sē nija, antara-dīpa jalānē āyā hūm̃ ||

Om hrīm śrī dēvaśāstragurubhya: Mōhāndhakāravinaśanāya dīpam̃ nirvapāmīti svāhā |

जड़-कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या-भ्रान्ति रही मेरी |  
 मैं राग-द्वेष किया करता, जब परिणति होती जड़ केरी ||  
 यों भाव-करम या भाव-मरण, सदियों से करता आया हूँ |  
 निज-अनुपम गंध-अनल से प्रभु, पर-गंध जलाने आया हूँ ||

ॐ ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरुभ्यः अष्टकर्मदहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा।

Jaṛa-karma ghumātā hai mujhakō, yaha mithyā-bhrānti rahī mēri |

Maim̃ rāga-dvēṣa kiyā karatā, jaba pariṇati hōtī jaṛa kēri ||

Yōm bhāva-karama yā bhāva-maraṇa, sadiyōm sē karatā āyā hūm̃ |

Nija-anupama gandha-anala sē prabhu, para-gandha jalānē āyā hūm̃ ||

Om hrīm śrī dēvaśāstragurubhya: Aṣṭakarmadahanāya dhūpam̃ nirvapāmīti svāhā |

जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है ।  
 मैं आकुल-व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है ॥  
 मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्तिरमा सहचरि मेरी ।  
 यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु! सार्थक फल पूजा तेरी ॥

ॐ ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरुभ्यः मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा।

Jaga mēm̄ jisakō nija kahatā mair̄m, vaha chōṛa mujhē cala dētā hai |

Mair̄m ākula-vyākula hō lētā, vyākula kā phala vyākulatā hai ||

Mair̄m śānta nirākula cētana hūm̄, hai muktiramā sahar̄i mērī |

Yaha mōha tar̄aka kara ṭūṭa par̄ē, prabhu! Sārthaka phala pūjā tērī ||

Ōm hrīm̄ śrī dēvasāstragurubhya: Mōkṣaphalaprāptayē phalam̄ nirvapāmīti svāhā |

क्षणभर निजरस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है ।  
 काषायिक भाव विनष्ट किये, निज-आनंद अमृत पीता है ॥  
 अनुपम-सुख तब विलसित होता, केवल-रवि जगमग करता है ।  
 दर्शन-बल पूर्ण प्रकट होता, यह ही अरिहन्त-अवस्था है ॥

यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु! निज-गुण का अर्घ्य बनाऊँगा ।

और निश्चित तेरे सदृश प्रभु! अरिहन्त-अवस्था पाऊँगा ॥

ॐ ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरुभ्यः अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

Kṣaṇa-bhara nija-rasa kō pī cētana, mithyā-mala kō dhō dētā hai |

Kāṣāyika bhāva vinaṣṭa kiyē, nija-ānanda amṛta pītā hai ||

Anupama-sukha taba vilasita hōtā, kēvala-ravi jagamaga karatā hai |

Darśana-bala pūrṇa prakṭa hōtā, yaha hī arihanta-avasthā hai ||

Yaha arghya samarpaṇa kara kē prabhu! Nija-guṇa kā arghya banā'ūm̄gā |

Aura niścita tērē sadṛśa prabhu! Arihanta-avasthā pā'ūm̄gā ||

Ōm hrīm̄ śrī dēvasāstragurubhya: Anarghyapadaprāptayē arghyam̄ nirvapāmīti svāhā |

## जयमाला Jayamālā

(ज्ञानोदय छंद)

बारह भावना चिन्तवन

भव-वन में जी भर घूम चुका, कण-कण को जी भर-भर देखा ।  
 मृग-सम मृगतृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा ॥१॥  
 झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएँ ।  
 तन जीवन यौवन अस्थिर<sup>१</sup> हैं, क्षण भंगुर पल में मुरझाएँ ॥२॥  
 सम्राट् महाबली सेनानी, उस क्षण को टाल सकेगा क्या ।  
 अशरण<sup>२</sup> मृत काया में हर्षित, निज जीवन डाल सकेगा क्या ॥३॥  
 संसार<sup>३</sup> महा-दुःखसागर के, प्रभु! दुःखमय सुख-आभासों में ।  
 मुझको न मिला सुख क्षणभर भी, कंचन-कामिनि-प्रासादों में ॥४॥  
 मैं एकाकी एकत्व<sup>४</sup> लिए, एकत्व लिए सब ही आते ।  
 तन-धन को साथी समझा था, पर वे भी छोड़ चले जाते ॥५॥  
 मेरे न हुए ये मैं इनसे, अतिभिन्न अखंड निराला हूँ ।  
 निज में पर से अन्यत्व<sup>५</sup> लिए, निज सम-रस पीनेवाला हूँ ॥६॥  
 जिसके श्रृंगारों में मेरा, यह महँगा जीवन घुल जाता ।  
 अत्यन्त अशुचि<sup>६</sup> जड़ काया से, इस चेतन का कैसा नाता ॥७॥  
 दिन-रात शुभाशुभ भावों से, मेरा व्यापार चला करता ।  
 मानस वाणी अरु काया से, आस्रव<sup>७</sup> का द्वार खुला रहता ॥८॥  
 शुभ और अशुभ की ज्वाला से, झुलसा है मेरा अंतस्थल ।  
 शीतल समकित किरणें फूटें, संवर<sup>८</sup> से जागे अंतर्बल ॥९॥  
 फिर तप की शोधक वह्निये जगे, कर्मों की कड़ियाँ टूट पड़ें ।  
 सर्वांग निजात्म प्रदेशों से, अमृत के निर्झर<sup>९</sup> फूट पड़ें ॥१०॥  
 हम छोड़ चलें यह लोक<sup>१०</sup> तभी, लोकांत विराजें क्षण में जा ।  
 निज-लोक हमारा वासा हो, शोकांत बनें फिर हमको क्या ॥११॥  
 जागे मम दुर्लभ बोधि<sup>११</sup> प्रभो! दुर्नयतम सत्वर टल जावे ।  
 बस ज्ञाता-दृष्टा रह जाऊँ, मद-मत्सर मोह विनश जावे ॥१२॥  
 चिर रक्षक धर्म<sup>१२</sup> हमारा हो, हो धर्म हमारा चिर साथी ।  
 जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहें जग के साथी ॥१३॥

(Jñānōdaya chanda)

Bāraha(12) bhāvanā cintavana

Bhava-vana mēm̄ jī bhara ghūma cukā, kaṇa-kaṇa kō jī bhara-bhara dēkhā |  
 Mṛga-sama mṛgatṛṣṇā kē pīchē, mujha kō na milī sukha kī rēkhā ||1||  
 Jhūṭhē jaga kē sapanē sārē, jhūṭhī mana kī saba āsā'ēm̄ |  
 Tana jīvana yauvana asthira<sup>1</sup> hair̄m, kṣaṇa-bhaṅgura pal mēm̄ murajhā'ēm̄||2||  
 Samrāṭ mahābalī sēnānī, usa kṣaṇa kō ṭāla sakēgā kyā!  
 Aśaraṇa<sup>2</sup> mṛta kāyā mēm̄ harṣita, nija jīvana ḍāla sakēgā kyā!! ||3||  
 Sansāra<sup>3</sup> mahā-du:khasāgara kē prabhu! Du:khamaya sukha-ābhāsōm̄ mēm̄ |  
 Mujha kō na milā sukha kṣaṇa-bhara bhī, kañcana-kāmini-prāsādōm̄ mēm̄ ||4||  
 Maim̄ ēkākī ēkatva<sup>4</sup> li'ē, ēkatva li'ē saba hī ātē |  
 Tana dhana kō sāthī samajhā thā, para vē bhī chōṛa calē jātē ||5||  
 Mērē na hu'ē yē maim̄ inasē, atibhinna akhaṇḍa nirālā hūm̄ |  
 Nija mēm̄ para sē an'yatva<sup>5</sup> li'ē, nija sama-rasa pīnēvālā hūm̄ ||6||  
 Jisakē śrṅgārōm̄ mēm̄ mērā, yaha maham̄gā jīvana ghula jātā |  
 Atyanta aśuci<sup>6</sup> jaṛa kāyā sē, isa cētana kā kaisā nātā ||7||  
 Dina-rāta śubhāśubha bhāvōm̄ sē, mērā vyāpāra calā karatā |  
 Mānasa vāṇī aru kāyā sē, āsrava<sup>7</sup> kā dvāra khulā rahatā ||8||  
 Śubha aura aśubha kī jvālā sē, jhulasā hai mērā antasthala |  
 Śītala samakita kiraṇēm̄ phūṭēm̄, sanvara<sup>8</sup> sē jāgē antarbala ||9||  
 Phira tapa kī śōdhaka vahni jagē, karmōm̄ kī karīyām̄ ṭūṭa paṛēm̄ |  
 Sarvāṅga nijātma pradēsōm̄ sē, amṛta kē nirjhara<sup>9</sup> phūṭa paṛēm̄ ||10||  
 Hama chōṛa calēm̄ yaha lōka<sup>10</sup> tabhī, lōkānta virājēm̄ kṣaṇa mēm̄ jā |  
 Nija-lōka hamārā vāsā hō, śōkānta banēm̄ phira hamakō kyā! ||11||  
 Jāgē mama durlabha bōdhi<sup>11</sup> prabhō! Durnayatama satvara ṭala jāvē |  
 Basa jñātā-dṛṣṭā raha jā'ūm̄, mada-matsara mōha vinaśa jāvē ||12||  
 Cira rakṣaka dharma<sup>12</sup> hamārā hō, hō dharma hamārā cira sāthī |  
 Jaga mēm̄ na hamārā kō'i thā, hama bhī na rahēm̄ jaga kē sāthī. ||13||

## देव-स्तवन

चरणों में आया हूँ प्रभुवर! शीतलता मुझको मिल जावे |  
 मुरझाई ज्ञान-लता मेरी, निज-अंतर्बल से खिल जावे ||१४||  
 सोचा करता हूँ भोगों से, बुझ जावेगी इच्छा-ज्वाला |  
 परिणाम निकलता है लेकिन, मानों पावक में घी डाला ||१५||  
 तेरे चरणों की पूजा से, इन्द्रिय-सुख की ही अभिलाषा |  
 अब तक न समझ ही पाया प्रभु! सच्चे सुख की भी परिभाषा ||१६||  
 तुम तो अविकारी हो प्रभुवर! जग में रहते जग से न्यारे |  
 अतएव झुकें तव चरणों में, जग के माणिक-मोती सारे ||१७||

## Dēva-stavana

Caraṇōm mēm āyā hūm̃ prabhuvara! Śītalatā mujha kō mila jāvē |  
 Murajhāi jñāna-latā mērī, nija-antarbala sē khila jāvē ||14||  
 Sōcā karatā hūm̃ bhōgōm sē, bujha jāvēgī icchā-jvālā |  
 Pariṇāma nikalatā hai lēkina, mānōm pāvaka mēm ghī ḍālā ||15||  
 Tērē caraṇōm kī pūjā sē, indriya-sukha kī hī abhilāṣā |  
 Aba taka na samajha hī pāyā prabhu! Saccē sukha kī bhī paribhāṣā ||16||  
 Tuma tō avikārī hō prabhuvara! Jaga mēm rahatē jaga sē n'yārē |  
 Ata'ēva jhukēm̃ tava caraṇōm mēm, jaga kē māṇika-mōtī sārē ||17||

## शास्त्र-स्तवन

स्याद्वादमयी तेरी वाणी, शुभनय के झरने झरते हैं |  
 उस पावन नौका पर लाखों, प्राणी भव-वारिधि तिरते हैं ||१८||

## Śāstra-stavana

Syādvādamayī tērī vāṇī, śubha-naya kē jharanē jharatē hair̃ |  
 Usa pāvana naukā para lākhōm̃, prāṇī bhava-vāridhi tiratē hair̃ ||18||

## गुरु-स्तवन

हे गुरुवर! शाश्वत सुख-दर्शक, यह नग्न-स्वरूप तुम्हारा है ।  
 जग की नश्वरता का सञ्चा, दिग्दर्श कराने वाला है ॥१९॥  
 जब जग विषयों में रच-पच कर, गाफिल निद्रा में सोता हो ।  
 अथवा वह शिव के निष्कंटक- पथ में विष-कंटक बोता हो ॥२०॥  
 हो अर्ध-निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हों ।  
 तब शांत निराकुल मानस तुम, तत्त्वों का चिंतन करते हो ॥२१॥  
 करते तप शैल नदी-तट पर, तरु-तल वर्षा की झड़ियों में ।  
 समतारस पान किया करते, सुख-दुःख दोनों की घड़ियों में ॥२२॥  
 अंतर-ज्वाला हरती वाणी, मानों झड़ती हों फुलझड़ियाँ ।  
 भव-बंधन तड़-तड़ टूट पड़ें, खिल जावें अंतर की कलियाँ ॥२३॥  
 तुम-सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दीं जग की निधियाँ ।  
 दिन-रात लुटाया करते हो, सम-शम की अविनश्वर मणियाँ ॥२४॥

## Guru-stavana

Hē guruvara! Śāśvata sukha-darśaka, yaha nagna-svarūpa tumhārā hai ।  
 Jaga kī naśvaratā kā saccā, digdarśa karānē vālā hai. ॥19॥  
 Jaba jaga viṣayōm mēm raca-paca kara, gāphila nidrā mēm sōtā hō ।  
 Athavā vaha śiva kē niṣkaṇṭaka- patha mēm viṣa-kaṇṭaka bōtā hō ॥20॥  
 Hō ardha-niśā kā sannāṭā, vana mēm vanacārī caratē hōm ।  
 Taba śānta nirākula mānasa tuma, tattvōm kā cintana karatē hō ॥21॥  
 Karatē tapa śaila nadī-taṭa para, taru-tala varṣā kī jhaṛiyōm mēm ।  
 Samatā-rasa pāna kiyā karatē, sukha-du:Kha dōnōm kī ghaṛiyōm mēm ॥22॥  
 Antara-jvālā haratī vāṇī, mānōm jharatī hōm phulajhaṛiyām ।  
 Bhava-bandhana taṛa-taṛa ṭūṭa paṛēm, khila jāvēm antara kī kaliyām ॥23॥  
 Tuma-sā dānī kyā kōi hō, jaga kō dē dīm jaga kī nidhiyām ।  
 Dina-rāta luṭāyā karatē hō, sama-śama kī avinaśvara maṇiyām ॥24॥



हे निर्मल देव! तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञानदीप आगम! प्रणाम |  
हे शांति-त्याग के मूर्तिमान, शिव-पंथ-पथी गुरुवर! प्रणाम ||

ॐ ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरुभ्यः अनर्घ्यपदप्राप्तये जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

**Hē nirmala dēva! Tumhērṁ praṇāma! hē jñānadīpa āgama! Praṇāma!!**

**Hē śānti-tyāga kē mūrtimāna! śiva-pantha-pathī guruvara! Praṇāma!!**

*Om hrīm śrīdēvaśāstragurubhya: Anarghyapadaprāptayē jayamālā pūrṇārgghyam nirvapāmīti svāhā |*

॥पुष्पांजलि क्षेपण करें॥